

उपयोगी पुस्तकें तथा वेदमंत्रादि स्युल्लाक्षरों में	
सनातन धर्म तथा आर्य्य-	तेजो असि० =)
समाज 1)	मनुष्य के जीवन तथा
पशुधन पाखन =)	मृत्यु के प्रश्न -)
आजकल के साधुओं	भद्रं कर्णेभिः -)
की करतूत =)	यथेमामांवाचं० -)
हरिशय गायन ॥=)	सर्वेषामेष दाना । ॥)
पुत्री शिक्षक ॥)	ओ३म् भंडे वाचा ।) ॥
प्रायश्चित्त विधि =)	प्राणायामं मन्त्र =)
ऋग्मन्त्र व्याख्या 1-)	अग्नि मीडे० =)
मानव धर्म सार ॥)	अभयं मित्रा० =)
गुरुमन्त्र अर्थ सहित =)	ओ३म् देवनागरी अ० =)
विश्वानि देव „ „ =)	तस्वीर स्वामी जी समाधि
हिरण्य गर्भ „ „ =)	वाली जंगल के हृदय वाली
धर्मके दस लक्षण „ =)	रंगीन ॥=)
आर्य्यसमाज के नियम =)	नोट वेदमन्त्र =) वाले कृष्ण
ओ३म् उर्दू तथा अंग्रेजी =)	कपड़े तथा रागन वाले ॥)
नमस्ते देवनागरी =)	एक के हिसाबसे दिये जाते
यमनियम गोलदायरेमें =)	हैं तथा तस्वीर और यम
समाधान प्रवेष्टव्य =)	नियम १।) व ॥=) प्रति के
अहिंसा परमो धर्मः तथा	हिसाब से है ।
यतो धर्मस्ततो जयः =)	व्याख्यान माता संस्कृत १।-

उपरोक्त तथा अन्य वैदिक धर्म सम्बंधी पुस्तकें मिलने का
पं० वजीरचन्द्र शर्मा अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय लाहौर।

अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा-
सुव । यद्गदन्तन्न आसुव ॥१॥ यजु.म. १० मं. १

अर्थ—हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पत्ति कर्ता
समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के
दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि)
सम्पूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुःखों को (परा, सुव)
दूर कर दीजिये (यत्) जो (गदन्) कल्याणकारक गुण
कमे स्वभाव और पदार्थ हैं (तत्) वह सब हमको
(आसुव) प्राप्त कीजिये ॥१॥

ओं हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य
जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं
धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

अर्थ—(हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाश स्वरूप और जिस ने प्रकाश करनेवाले सूर्य चन्द्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो (भूतस्य) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत् का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी (एकः) एक ही चेतन स्वरूप (आसीत्) था, जो (अग्रे) सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्त्तत) वर्त्तमान था (सः) सो (इमाम्) इस (पृथिवीम्) भूमि को (उत्त) और (धाम्) सूर्यादि को (दाधार) धारण कर रहा है, हम लोग उस (कस्मै) सुख स्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से (विधेम) विशेष भक्ति किया करें ॥ २ ॥

ओं य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपा-
सते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य च्छाया ऽमृतं
यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

यजु० अ० २५ । मं० २३ ॥

अर्थ—(यः) जो (आत्मदा) आत्म-ज्ञान का दाता

(बलदा) शरीर आत्मा और समाज के बल का देने
 द्वारा (यस्य) जिस की (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्
 लोग (उपासते) उपासना करते हैं और (यस्य) जिस
 का (प्रशिक्षं) प्रसन्न सत्य स्वरूप आसन और न्याय
 अर्थात् शिक्षा को मानते हैं (यस्य) जिसका (छाया)
 आभय ही (अमृतम्) मोक्ष सुखदायक है (यस्य) जिस
 का न मानना अर्थात् भक्ति न करना ही (मृत्युः)
 मृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम लोग उस (कस्मै)
 सुख स्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा
 की प्राप्ति के लिए (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण
 से (विधेम) भक्ति अर्थात् आज्ञापालन में तत्पर
 रहें ॥ ३ ॥

ओं यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक
 इद्राजा जगतो बभूव । य ईशेऽस्य द्विपदश्च-
 तुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥

यजु० अ० २३ मं० ३

अर्थ—(यः) जो (प्राणतः) प्राणवाले और (निमि-
 षतः) अप्रमाण रूप (जगतः) जगत् का (महित्वा) अपनी

अनन्त महिषा से (एक, इत्) एकही (राजा) विराज-
मान राजा (बभ्रुव) है (यः) जो (अस्य) इस (द्वि, पदः)
मनुष्यादि और (चनुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के
शरीर की (ईशे) रचना करता है । हम उस (कस्मै)
सुख स्वरूप (देवाय) सकलैश्वर्य के देनेहारे परमात्मा
के लिये (हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से
(विधेम) विशेष भक्ति करें ॥४॥

ओं येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन
स्वः स्तभितं येन नाकः । यो अन्तरिक्षे
रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

य० अ० ३२ । मं० ६

अर्थ—(येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण
स्वभाववाले (द्यौः) सूर्य आदि (च) और (पृथिवी)
भूमि का (दृढा) धारण, (येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः)
सुख का (स्तभितम्) धारण, और (येन) जिस ईश्वर ने
[नाकः] दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है (यः) जो
[अन्तरिक्षे] आकाश में [रजसः] सब लोक लोकान्तर्ग

को [विमानः] विशेष मानयुक्त अर्थात् जैसे आकाश में पक्षी उड़ते, वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस [कस्मै] सुख-दायक [देवाय] कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये [हविषा] सब सामर्थ्य से [विधेम] विशेष भक्ति करें ॥

ओं प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा
जातानि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहु-
मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रथीणाम् ॥६॥

ऋ० मं० १० सू० १२१ मं० १०

अर्थ—हे [प्रजापते] सब प्रजा के स्वामी परमात्मन् !
[त्वत्] आप से [अन्यः] भिन्न दूसरा कोई [ता] उन
[एतानि] इन [विश्वा] सब [जातानि] उत्पन्न हुए जड़
चेतनादिकों को [न] नहीं [परि, बभूव] तिरस्कार
करता है अर्थात् आप सर्वोपरि हैं [यत्, कामाः]
जिस २ पदार्थ की कामना वाले हुए हम लोग [ते]
आपका [जुहुमः] आश्रय लेवें और बाञ्छा करें [तत्]

उस २ की कामना [नः] हमारी सिद्ध [अस्तु] होने
जिस से [वयम्] हम लोग [रयीणाम्] धन ऐश्वर्यों
के [पतयः] स्वामी [स्याम] हों ॥६॥

ओं स नो बन्धुर्जनिता स विधाता
धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा
अमृतमानशानास्तृतीये धामन्धैरयन्त ॥७॥

यजु० अ० ३२ मं० १०

अर्थ—हे मनुष्यो ! [सं:] वह परमात्मा [नः] अपने
लोगों को [बन्धुः] भ्राता के समान सुखदायक [जनिता]
सकल जगत् का उत्पादक [सः] वह [विधाता] सब
कामनाओं को पूर्ण करनेहारा [विश्वा] सम्पूर्ण [भुव-
नानि] लोकमात्र और (धामानि) नाम स्थान और
जन्मों को (वेद) जानता है और (यत्र) जिस (तृतीये)
सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त (धामम्)
मोक्ष स्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा में (अमृतम्)
मोक्ष को (आनशानाः) प्राप्त होके (देवाः) विद्वान् लोग
(अधैरयन्त) स्वेच्छा पूर्वकविचरते हैं । वही परमात्मा

अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है । अपन
लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें ॥७॥

ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि
देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहु-
राणामेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥८॥

य० अ० ४० मं० १६

अर्थ—हे (अग्ने) स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत्
के प्रकाश करने वाले (देव) सकल सुखदाता परमेश्वर !
आप जिस से (विद्वान्) सम्पूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा
कर के (अस्मान्) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा
राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए (सु, पथा) अच्छे
धर्म युक्त प्राप्त लोगों के मार्ग से (विश्वानि) सम्पूर्ण
[वयुनानि] ज्ञान और उत्तम कर्म [नय] प्राप्त करायें
और [अस्मत्] हम से [जुहुराणं] कुटलतायुक्त [एनः]
पाप रूप कर्म को [युयोधि] दूर कीजिये इस कारण
हम लोग [ते] आपकी [भूयिष्ठां] बहुत प्रकार की
स्तुति रूप [नमः उक्तिम्] नम्रता पूर्वक प्रशंसा [विधेम]
सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥८॥

स्वस्तिवाचनम् ।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।
होतारं रत्नधातमम् ॥१॥

भाषार्थ—जो इस संसार का धारण कर्ता वांछित पदार्थों का दाता पृज्यों का पृज्य दानादि गुणयुक्त सबका ग्रहणकर्ता रमणीक पदार्थों का धारक अतन्त्र प्रसिद्ध अग्नि परमेश्वर हैं उससे हम याचना वा [स्तुति] करते हैं ॥१॥

स नः पितेव सूनवेऽग्रे सूपायनो भव ।
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २ ॥

ऋ० मं० १ । सू० १ मं० १ । ६

भाषार्थ—हे अग्ने परमेश्वर ! आप हमारे लिये पिता पुत्र के सदृश अच्छी प्रीति से युक्त हो हमारा कदापि नाश मत करो ॥२॥

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति
देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधा-
तु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥३॥

भाषार्थ—धौ और पृथिवी का धारक परमेश्वर हम सब का मंगल करे, पङ्क्ति ऐश्वर्यवान् देवी प्रकाशक अखण्डित चित्तशक्ति सर्वत्र व्यापक [पृषा] पुष्टि कारक शुलोक भूलोक यह सम्पूर्ण प्रज्ञानघन परमेश्वर की कृपा से हम सब के [स्वस्ति] अविनाशकारी हों ॥३॥

स्वस्तये वायुमुपव्रवामहै सोमं स्वस्ति
भुवनस्य यस्पतिः । बृहस्पतिं सर्वगणं स्व-
स्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥

भाषार्थ—वायु का वायु, स्वामियों का स्वामी, बड़ों का बड़ा, आदित्यों का आदित्य जो परमेश्वर है, उससे हम सब योगक्षेम के लिये प्रार्थना करते हैं ॥४॥

विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो
वसुरग्निःस्वस्तये । देवा अवन्त्वृभवःस्वस्तये
स्वस्ति नो रुद्रः पातृंहसः ॥५॥

भाषार्थ—सम्पूर्ण विद्वानों का आधार वैश्वानर अग्नि नामक तथा देव विशेष ऋभुरुद्र इन सब का वाच्य जो ईश है, उसकी कृपा से हमारे सम्पूर्ण पाप विजय को प्राप्त हों ॥५॥

स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति ।
स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि

भाषार्थ—सर्व मित्र सर्व सुखदाता धर्य धनस्वरूप
जगत्स्रष्टा सर्व प्रकाशक हे [अदिते] अखण्डित स्वरूप
परमेश्वर आप हमारा मंगल करें ॥६॥

स्वस्ति पन्थामनुचरेमं सूर्याचन्द्रमसाविव ।
पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि ॥७॥

ऋ० मं० ५ सू० ५१

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! आपकी दया दृष्टि से सूर्य
चन्द्रमा के समान अच्छे मार्ग में आपका स्पर्श करते
हुये हम सब आनन्द मंगल पूर्वक विहार करें अनेक
देश देशान्तरों में दान तथा स्वधर्म रक्षा करते हुये
निज बन्धुजनों से पुनः सम्मिलित हों ॥७॥

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा
अमृता ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगाय-
मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥

ऋ० मं० ७ सू० ३६ ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! आप के अनुग्रह से पूज्य देवों के पूजनीय तथा मननशील मनु के भी याज्ञक मरण रहित सत्य के ज्ञाता जो देव हैं वे सम्पूर्ण विपुल कीर्तियुक्त पुत्रादि पदार्थों के लाभ में सहकारी तथा कल्याण युक्त पदार्थों की रक्षा में भी युक्त हो ॥ ८ ॥

येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं
द्यौरदितिर्दिवर्हाः । उक्थशुष्मान् वृषभरा-
न्त्स्वप्नसरतां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये ॥ ९ ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! [माता] माता पृथ्वी तथा मेघों से असन्त दूध [द्याः] द्युलोक पिता ये दोनों [पीयूषम्] माधुर्य युक्त [पयः] अमृत द्रव्य पदार्थ को उत्पन्न करते हैं । असन्त बलिष्ठ दृष्टि के दाता शोभन कर्म आदिति पुत्र सूर्य लोक हमारे सब के कल्याण कारक आपके अनुग्रह से हों ॥ ९ ॥

नृचक्षसो अनिमिपन्तो अर्हणा बृहद्देवासो
अमृतत्वमानशुः । ज्योतीरथा अहिमाया
अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥ १० ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से मनुष्यों के दबानेवाले, जागरणाशील, पूज्यतम, विद्वान्, दीप्तिमान्, स्थयुक्त [ज्ञानी] अकुण्ठित बुद्धिवाले पापरहित उन्नत देश को संसार के कल्याणार्थ स्वबुद्धि प्रभा से परिपूर्ण करते हैं ॥ १० ॥

सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृतता
दधिरेदिवि क्षयम् । तां आ विवास नमसा
सुवृत्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये । ११

भाषार्थ—स्वतेज से सम्यक् प्रकाशमान, अत्यन्त वृद्ध [देव] विद्वान् सर्व प्रकार से अहिंसित होकर यज्ञ में उपस्थित होते हैं, वही सुख स्थान में निवास करते हैं, तथा गुणाधिक्य से प्रसिद्ध उन देवों को इविरूप अन्न से और परमेश्वर की स्तुति से तुम सब उपासना करो ॥ ११ ॥

को वःस्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे
देवासो मनुषो यतिष्ठन । को वोऽध्वरं तुवि-
जाता अरंकरद्यो नः पर्षदंत्यंहः स्वस्तये । १२

भाषार्थ—परमेश्वर देवताओं को तर्क पूर्वक उपदेश

है कि हे विद्वानो ! हे मननशील ! तुम सब की जो संख्या है उस में कौन विद्वान् स्तुतिसमूह का साधन करता है, जिस का तुम सब सेवन करते हो अर्थात् वेद वाक्य, वही वेद है वह जन (देवों) तुम सब को यज्ञ में अत्यन्त शोभित करता है तथा (यज्ञ पुष्कल) आनन्द के लिये वैदिकमार्ग में आप सब ये मैं प्रवृत्त करता हूँ ॥१२॥

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुःसमिद्धाभिर्म-
नसा सप्तहोतृभिः । त आदित्या अभ्यं शर्म
यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ॥१३॥

भाषार्थ—हे जगदीश ! सम्यक् देदीप्यमान मननशीलों के उपदेशक आप ही ने विद्वानों को सप्त होताओं के द्वारा मन से प्रथम यज्ञ का उपदेश किया वही आदित्य परमेश्वर के पुत्र स्थानापन्न हम सब को निर्भय सुखदान करें तथा सुख का कारण जो मार्ग है वह भी बतावें ॥१३॥

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्था-
तुर्जगतश्च मन्तवः । ते नः कृतादकृतादे-
नसस्पर्षद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥१४॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! स्थावर वृक्षादि, जंगम मनुष्यादि विविध जीवों के आधाररूप सम्पूर्ण लोकों के स्वामी जो विद्वान्, सब के ज्ञाता, प्रकृष्ट ज्ञानवान्, हैं वे स्वशिक्षा वा उपदेश से कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से बचा कर हमको सदैव आयु वृद्धि के लिये परिपूर्ण करें ॥१४॥

भरोष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोमुचं सुकृतं
दैव्यं जनम् । अग्निं मित्रं वरुणं सातये
भगं द्यावापृथिवीमरुतः स्वस्तये ॥१५॥

भाषार्थ—पापमोचक परमैश्वर्यवान् शोभन आ-
ह्वानयुक्त परमेश्वर को हम अपनी रक्षा के लिये
आह्वान करते हैं तथा अन्न लाभ और अविनाश के
लिये परमेश्वर कृत अग्नि सूर्य जल ऐश्वर्य युक्त लोक,
भूमि, वायु, इनको भी स्तुतिार्थ याचना करते हैं ॥१५॥

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणा-
मदितिं सुप्रणीतिम् । दैवीं नावं स्वरिणाम-
नागसमस्तवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६॥

भाषार्थ—हे स्वयम् अविनाश स्वरूप परमेश्वर !
आप की दया से हम लोग शोभन रक्षा युक्त, पाप
रहित, पृथ्वी पर, शोभन सुरथ युक्त (स्थान युक्त)
परमेश्वर कृत अखाण्डित सुख स्थान पर, पाप रहित
नौका के सदृश युनोक्त में आनन्दकेलिये आरूढ़ हों १६

विंशे यजत्रा अधि वोचतोतथे त्रायध्वं
नो दुरेवाया अभिहुतः । सत्यया वो देवहू-
त्या हुवेम श्वरावतो देवा अवसे स्वस्तये १७

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! आप की दया से सम्पूर्ण
यजनशील विद्वान्, हिंसायुक्त दुर्गति से बचा कर
रक्षा का उपाय दर्शावें तथा शत्रुओं से रक्षा कर
जीवन वृद्धि के लिये परमेश्वर की यथार्थ भूत (देव-
हूती) वाणी श्रवण करते हुए हम आप को आह्वान
करते हैं । १.७॥

अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारार्तिं
दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्यु
योतनोरुणाः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥१८॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! रोगवत्] बाधक, विद्वानों के महाशत्रु, यज्ञ हवि के अदाता, लोभ बुद्धि तथा पापियों की दुष्ट बुद्धि, सम्पूर्ण द्वेषा, इन सब को हम से पृथक् करो और विस्तीर्ण मुख, भोग के लिये दान करो ॥१८॥

अरिष्टः समर्त्तो विश्व एधते प्र प्रजाभि-
र्जायते धर्मणस्परि । यमादित्यासो नयथा
सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये । १९॥

भाषार्थ—परमेश्वर का उपदेश है, कि सम्पूर्ण मनुष्य हिंसा रहित धर्मिक प्रथम धन आदि से बढ़ता है, उसी धर्म के अत्यन्त धारण करने से पुत्रादि वर्ग से प्रसिद्ध होता है। वह कौन है कि जिसको विद्वान् लोग सम्पूर्ण दुष्ट मार्गों से वचाकर सुख भोग के कारण शोभन नीति से सन्मार्ग में प्राप्त करते हैं । १९॥

यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता
मरुतो हि ते धने । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र-
सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥२०॥

भाषार्थ—परमेश्वर का उपदेश है, कि विद्वानों !
अन्न लाभ के कारण उस रथ को तुम तथा मनन-
शील जन संग्राम में रक्षा करो । हे इन्द्र ! जो युद्ध
का कारण, अर्द्धोत्तित बैठने के योग्य रथ है, उसी
पर आप आर आप के सहायक सब आरूढ़ हों ॥ २० ॥

स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु
वृजने स्वर्वति । स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु
स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ २१ ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! सजल निर्जल देव,
तथा केवल जल शत्रुवर्जित अस्त्रधारी सेना बल,
पुत्रोत्पादक स्त्री गर्भ, इन सब को आप कल्याणार्थ
युक्त करें तथा भोगार्थ धन का दान दीजिये ॥ २१ ॥

स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णावत्यभि
या वाममेति । सा नो अमासो अरणो
निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ २२ ॥

ऋ० म० १० । सू० ६३ ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! आप की दया से जो पृथ्वी, गगनशीनों के अच्छे मार्ग दान में कल्याण स्वरूप, अत्यन्त श्रेष्ठ धन पाली, यज्ञ का आधार भूमि है तथा हमारे सब के गृहस्था कारण, वही पृथ्वी रमण करने योग्य देशों के हेतु तथा भ्रमण में रक्षक सब के शोभन निवास का कारण है ॥

इधे त्वोज्जै त्वा वायवस्य देवा वः सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्वन्या
इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमी वा अयक्षमा मा
वस्तेन ईशत माघशशंसो ध्रुवा अस्मिन्
गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॥

यजु० अ० १ म० १ ॥

भाषार्थ—संसार में प्राणीमात्र सुख क अर्थी हैं सुख बिना, कारण के नहीं होता अतः सुख का कारण प्रथम जानना चाहिये । प्रत्यक्षतः सुख का कारण भोजन आच्छादन है । परन्तु वे कार्य्य पदार्थ हैं, कार्य्य पदार्थ का बिना कारण के होना असम्भव है, अतएव इस मंत्र में कारण पदार्थ का निरूपण

क्रिया जाता है। वेद में तीन प्रकार के विषय हैं, वर्म, ज्ञान, उपासना। उन में प्रथम कर्मकाण्ड (यज्ञ का वर्णन) सम्पूर्ण कार्य पदार्थों का कारण है। (अग्नी प्रस्ताहुतिः सम्यक् आदिसमुपतिष्ठते आदिसा-ज्जायते दृष्टिः दृष्टेरन्नं ततः प्रजाः) १ इसका अर्थ यह है कि अग्नि में हुत पदार्थ सूर्य रश्मि द्वारा आदिस में उपस्थित होता है, आदिस से दृष्टि, दृष्टि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से प्रजा, अतएव यज्ञ का करना पोषण के द्वारा सम्पूर्ण सुखों का मुख्य कारण है। इसी से परमेश्वर ने प्रथम वर्मकाण्ड का निरूपण कर पश्चात् ज्ञान उपासना का निरूपण किया है। कर्म चार प्रकार के हैं, १ संसार के विरुद्ध बधवन्धन के हेतु चांर्यादि कर्म निन्दित हैं २ प्रशंसा के हेतु बन्धु-वर्गादिका पोषण रमणीय है, ३ वापी कूप तड़ाग आदि का बनाना श्रेष्ठ हैं ४ वेद विहित योगादि रूप कर्म श्रेष्ठतम हैं अतः वैदिक कर्म करने को वेद से परमेश्वर मनुष्यों के लिये विधान करता है। अतएव उचित जानकर, परपदयालु परमेश्वर से जीव-नोपाय की हम सब प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना

अनुसार परमेश्वर हम सब को श्रेष्ठकर्म करने की आज्ञा देता है। उसी वैदिक अग्निष्टोमादि यज्ञ के करने से हम सब को परमेश्वर की प्रार्थानुसार रोग रहित प्रजावाले स्त्री पुत्र पश्वादि सकल पदार्थ वृद्धि के कारण उपलब्ध होंगे। चौर, व्याघ्रादिक पदार्थों से सदैव रक्षित रहेंगे। यज्ञ के साथक यावत् पदार्थ पश्वादिकों की वही परमेश्वर रक्षा करेगा। अतएव उसी परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं।

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽद-
ब्धासोऽअपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा
सदमिद्वृधेऽसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे॥

भाषार्थ—हे ईश्वर ! अन्य यज्ञों के कारण फल से अनुमित, सर्वतो निर्बिघ्न समाप्त, कल्याण कारक यज्ञ को सङ्कल्पों के हम सब अनुष्ठाता अर्थात् करनेवाले हों। अतएव उक्त कर्म का फलदाता परमेश्वर सदैव हम सब अनालसियों का वृद्धिकारक वा रक्षक है ॥२४॥

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां
रातिरभि नो निवर्त्तताम् । देवानां ॥सख्य-
सुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीयसे

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! उत्तम कर्म करनेवाले विद्वानों की कल्याणकारिणी बुद्धि तथा दानशक्ति भी मुझको दे हम सब उक्त विद्वानों के सखा होकर आप के उपदेशों से चिरजीवी हो आयु को बढ़ावें ॥२५॥

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियाञ्जि-
न्वमवसे हूमहे वयम् । पूषा नो यथा वेद सा
मसद्रवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! स्थावर जंगम के पति, बुद्धि संतोषक आग हमारे स्वामी हैं । अतएव हम सब रक्षा के लिये आप ही का आह्वान करते हैं (पूषा) पुष्टिकारक ज्ञान वा धन के रक्षक, सर्व पालक, स्वयं अहिंसित आप हमारी वृद्धि वा मंगल के कर्ता हों ॥२६॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः
पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट-
नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२७॥

भाषार्थ—अत्यन्त कीर्ति युक्त इन्द्र, विश्ववेद वा धन का ज्ञाता, (पूषा अरिष्ट नेमि) अहिंसित मर्यादा

(तात्पर्य) बृहस्पति, देव, पालक इनका वाच्य जो पर-
मेश्वर है, वह हम सब का भंगल करे ॥ २७ ॥

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्य
माक्षुभिर्भुजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳमस्तनू-
भिर्व्यञ्जयामहि देवहितं यदायुः ॥२८॥

यजु० अ० २५। मं० १४। १५। १८। १९। २१॥

भाषार्थ—हे जगदीश ! आपके कृपाकटाक्ष से
कल्याणकारक अनुकूल वाक्यों को सुने, तथा प्रिय
पदार्थों को नेत्रों से देखें, दृढ़ अङ्गद्वस्त आदि शरीर से
आपकी स्तुति करते हुए, पूर्णायु होकर विद्वानों के
समान आपको प्राप्त हों ॥२८॥

२ ३ १ १ ३ १ २ ३ १ २ ३ २ ३ १ २
अथ आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये

१ १ २ २ १ २ ३
निहोता सत्सि बर्हिषि ॥२९॥

भाषार्थ—हे अग्ने, परमेश्वर ! आप की मैं प्रार्थना
करता हूँ । मैंने जो कुछ हवनीय पदार्थ यज्ञ में दान
किया है, उसको यथावत् स्वीकार कर, मेरी प्रार्थना
को फल-दान से सफल कीजिये ॥२९॥

१ २ ३ २ ३ २ २ ३ २ ३ २
त्वमग्ने यज्ञाना ७ होता विश्वेषा ७ हितः ।

३ २ ३ १ २ ३ १ २
देवेभिर्मानुषे जने ॥ ३० ॥

सा० छन्द आ० प्रपा० १ मं० १।२

भाषार्थ—हे अग्ने, परमेश्वर ! अग्निष्टोमादिक सम्पूर्ण
यज्ञों के आप ही होता अथात् उपदेष्टा तथा ऋत्विजों
के द्वारा मनुष्यमात्र के, उक्त यज्ञों से, आप ही प्रिय
कर्त्ता हैं ॥ ३० ॥

ये त्रिषप्तः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः ।
वाचस्पतिर्विला तेषां तन्वा अद्य दधातु मे ॥ ३१ ॥

अथर्व० का० सू० १।वर्ग१।अनु०१।प्रपा०१ मं०१

भाषार्थ—यज्ञज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा,
पञ्चपाण्ड, इक्कीसवां जीव, यही इक्कीस सम्पूर्ण रूपों
के धारण पोषण कर्त्ता, सर्वत्र गमन करते हैं, इन सब
का स्वामी परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारे सम्पूर्ण
शरीरों को सुरक्षित करे ॥ ३१ ॥

इति स्वसितचनवाम्

अथ शान्तिप्रकरणम् ।



शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा
वरुणागतहव्या । शमिन्द्रा सोमा सुविताय
शंयोः शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ ॥१॥

भाषार्थ—हम सब के लिए (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्
(अग्नि) व्यापक रक्षा के द्वारा शान्तिदायक हों, यज-
मानों के हव्य ग्राहक इन्द्र तथा वरुण तथा इन्द्र सोम
शान्ति और कलाण के दायक हों । इन्द्र और पूषा
भी युद्ध व अन्न लाभ में सुखद हों ॥१॥

शन्नो भगः शमु नः शन्नो अस्तु शन्नः
पुरन्धिः शमु सन्तु रायः । शन्नः सत्यस्य सुय-
मस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥

भाषार्थ—सृष्टिकर्त्ता परमेश्वर सुखद हो, उसीकी
कृपा से (भग) ऐश्वर्य, मनुष्यों के उपदेश, अधिक
बुद्धिमान्, धन शोभन यथोक्त सत्य का बोधक वचन
ये सभी सुखदायक हों ॥२॥

शन्नो धातां शमु धर्ता नो अस्तु शन्न
उरुची भवतु स्वधाभिः । शं रोदसी बृहती शं
नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥

भाषार्थ—(धाता) जगद का धारणकर्त्ता (धर्ता)
तथा विशेष रूपसे धारण पोषणादि करदेवाला पर-
मेश्वर तथा बृहत् (रोदसी) आकाश, अन्न सहित
पृथ्वी पर्वत विद्वानों को और हम सब को भलीभांति
सुखदायक हों ॥३॥

शन्नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्र
वरुणावश्विना शम् । शन्नः सुकृतां सुकृतानि
सन्तु शन्न इषिरो अभिवातु वातः ॥४॥

भाषार्थ—ज्योतिर्मय अग्नि, मित्र, वरुण, सुलोक,
सुलोक सृष्टियों के पुण्य गमनशील वायु परमेश्वर
की कृपा से ये सब सुखदायक हों ॥४॥

शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिचं
दृशयेनो अस्तु । शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु
शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥

भाषार्थ—सब के कारण घौ, भू देसमे का कारण
अन्तरिक्ष औषधि वृक्ष लोक रक्षक (इन्द्र) सूर्य यह
सब परमेश्वर की दया दृष्टि से सुखदायक हों ॥५॥

शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्ये-
भिर्वरुणः सुशंसः । शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलावः
शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु ॥६॥

भाषार्थ—स्वकीर्तियों से घोतनादि गुणयुक्त (इन्द्र)
सूर्य जीवों के सहित शोभन स्तुति युक्त (वरुण)
सुखदाता प्राणों से (रुद्र) दुःखदायक यज्ञ में विदुस्त्रियों
के सहित विद्वान् परमेश्वर की कृपा से सुखदायक हों
और परमेश्वर हमारी स्तुति को श्रवण करे ॥६॥

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो
प्रावाणः शसु सन्तु यज्ञाः शं नः स्वरूपां मित
यो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! सोमस्तोत्र, सोमरस निका-
सने के पाषाण यज्ञ खम्भों के परिमाण औषधि वेदी
यह सब आपकी कृपा से यज्ञ के साधन भूत सुख
दायक हों ॥७॥

शं न सूर्य उरुवक्त्रा उदेतु शं नश्चतस्रः
प्रदिशो भवन्तु । शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु
शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! अत्यन्त तेजस्वी सूर्य हम
सब के कर्यागार्य उदय को प्राप्त हों तथा चारों
दिशा इदतर पर्वत नदी जल यह भी सुखदायक हों ॥८॥

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु
मरुतः स्वर्काः । शं नो विष्णाः शमु पूषा नो
अस्तु शं नो भवित्रं शम्बस्तु वायुः ॥९॥

भाषार्थ—शोभन कर्मों से अदिति सर्वात्मक पर-
मेश्वर सुखकारक हो तथा अत्यन्त प्रशस्त महान् व्या-
पक विष्णु पुष्टिकारक पूषा लोक अन्तरिक्ष जल
वायु यह भी शुभकारी हों ॥ ९ ॥

शं नो देव सविता त्रायमाणः शं नो
भवेत्पुषो विभातीः । शं नः पर्जन्यो भवतु
प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥१०॥

भाषार्थ—रत्नक सर्वोत्पादक क्रीड़ादि गुणयुक्त परमेश्वर तथा परमेश्वरीय प्रकाशमान प्रातःकाल, सुख-
कारी हो सुखोत्पादक हो (क्षेत्रपति) कारखानों का कारण
है तथा मेघ यह प्रजामात्र को सुखदायक हो ॥१०॥

शं नो देवा विश्वदेवा भवंतु शं सरस्वती
सह धीमिस्तु । शमभिषाचः शमु रातिषाचः
शं नो दिव्याः पार्थिवा शं नो अप्याः ॥११॥

भाषार्थ—अत्यन्त स्तुति युक्त देव विद्वान् अर्ध
सहित परमेश्वरीय वाणी यज्ञकादाता, द्युलोक, भूलोक
अन्तरिक्ष में जो उत्पन्न हुए तथा पूर्वोक्त पदार्थ सब
सुखदायक हो ॥११॥

शं नः सत्यस्य पतयो भवंतु शं नो अर्वतः
शमु संतु गावः । शं न ऋभवं सुकृताः
सुहस्ताः शं नो भवंतु पितरो हवेषु ॥१२॥

भाषार्थ—सत्यवादी अर्ध मौ [सुकृती] शोभन
हस्तियुक्त विद्वान् तथा पूर्वज ये सब हमारी प्रियवाणी
श्रवण कर सुखदायक हो ॥१२॥

शं नो अज एकपादेवो अस्तु शं नोऽहि-
वुर्ज्यः शं समुद्रः । शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु
शं नः पृथिर्भवतु देवगोपाः ॥१२॥

ऋ० मं० ७ मू० १५ मं० १-१६

भाषार्थ—अज एकपात अहिर्बुध्न्य समुद्र उपद्रवों
से रक्षक (अपां नपातदेवगोपा) विद्वानों की रक्षा करने
वाली पृथि अर्थात् वायुओं का कारण ये सब सुख
दायक हों ॥१३॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो ऽअस्तु
द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥

भाषार्थ—मननशील प्राणिमात्र सर्वस्वामी परमेश्वर
से पुत्र पश्वादिकों के सुख की मार्थना करते हैं ॥१४॥

शं नो वातः पवतां ७ शं नस्तपतु सूर्यः ।
शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्योऽअभिवर्षतु ॥

भाषार्थ—हे परमेश्वर ! वायु, सूर्य प्राणिमात्र को
सुखदायक हों तथा अत्यन्त गर्जनशील मेघ अच्छी
वृष्टि करें ॥ १५ ॥

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रीः प्रति-
धीयताम् । शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः
शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या । शन्न इन्द्रा
पूषणा वाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय
शं योः ॥ १६ ॥

भाषार्थ—हे परमदयासो ! आपकी कृपा से रक्षा
युक्त दिन रात्रि इन्द्र अग्नि गृहीत इन्द्र इन्द्र वरुण अन्न
दान के सहकारी इन्द्र पूषा कर्याणदाता इन्द्र सोम
ये सब रोग भय नाश पूर्वक हम सब के कर्याणकर्त्ता
हों । मन्त्र में इन्द्र शब्द कई बार आया है । इन्द्र से
मेघ, सूर्य, जीव ब्रह्म राजा का ग्रहण है यथा सम्भव
संगठित कर लेना ॥ १६ ॥

शं नो देवीरभिष्टयऽआपो भवंतु पीतये ।
शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १७ ॥

भाषार्थ—हे जगदीश्वर ! आप हमारे रोग भय
नाश करते हुए हम सब को पूर्णानन्द प्रदान करो ।
अथवा आप के बसाये हुए दिव्य गुण विभिन्न जल
वा अन्तरिक्षीय पदार्थ रोग भय नाश पूर्वक सुख
साधक हों ॥ १७ ॥

धौः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथिवी
 शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः
 शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व ७
 शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥

भाषार्थ—धौ, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, ओषधि,
 वनस्पति, सम्पूर्ण वेद, ब्रह्म वेद, परमेश्वर, सम्पूर्ण
 जगत् शान्ति और इनका स्वरूप जो शान्ति वा इनमें
 रहनेवासी जो शान्ति है वह शान्ति परमेश्वर के कृपा
 कटाक्ष से हम सब को भी उपलब्ध हो ॥१८॥

तच्चक्षुर्देवदितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् ।
 पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदःशत ७ शृणु-
 याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः
 स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

यजु० अ० ३६ । मं० ८ । १ । ११ । १२ । १७ । २४

भाषार्थ—जो सूर्य सर्व प्रकाशक नेत्र स्थानापन्न
 भासमान् पूर्व दिशा में अर्थात् पूर्व दिशा का कारण
 भूत उदय कर्ता है, उसका रचनेवाला वा उसका भी

प्रकाशक परमेश्वर अपनी दया दृष्टि से हम सब को सौ वर्ष देखना, जीना, सुनना, कहना इनका सामर्थ्य दे तथा हम सब सौ वर्ष से अधिक पराधीन न हों ॥१६॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥१॥

शापार्थ—(जाग्रतः) अनिन्दित पुरुष का जो मन विषय वासना द्वारा दूर देशों में चला जाता है वही प्रकाशक मन सुषुप्त पुरुष के स्वप्न काल में विषय वासना जाल को त्याग कर पुनः अपने नियत स्थान पर आ जाता है अतएव उक्त मन (ज्योतिः) प्रकाशक सम्पूर्ण इन्द्रियों का भी प्रकाशक दूरगामी वही हमारा एक मन सदैव धर्मानुष्ठान वा परमेश्वर के ज्ञान में संलग्न हो ॥१॥

येन कर्माश्रयपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यत्तमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २ ॥

भाषार्थ—कर्म कर्ता मनीषी मनको वश करनेवाले
ज्ञानवान् विचार पूर्वक जिस मन से यज्ञानुष्ठान करते
हैं, वही हमारा मन सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रवर्तक श्रेष्ठ
मजा के अन्तः शरीर में वर्तमान सदैव परमेश्वर के
ज्ञान वा धर्मादि शुभ कर्मों में संलग्न हो ॥ २ ॥

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिर-
न्तरमृतं प्रजासु । यस्मान्न ऋतोक्त्विन कर्म
क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥

भाषार्थ—जो मन चेतः स्वरूप धैर्योत्पत्ति का
कारण प्रजा वर्ग के अन्तःकरण में मरणा धर्म रहित
प्रकाशित है, जिस मन के बिना कोई भी क्रिया नहीं
होती है, वही हमारा मन संसारोच्छेदक ब्रह्मज्ञान वा
सुख प्राप्ति के कारण में सन्निविष्ट हो ॥ २२ ॥

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम-
मृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥

भाषार्थ—जिस अमरणाधर्मा मन ने भूत भविष्यत् वर्तमान काल के सम्पूर्ण पदार्थों का अनुभव किया है तथा सप्त होता साध्य अग्निष्टोम यज्ञ का भी विस्तार किया है, वही हमारा मन सर्वदा धर्मादि अनुष्ठान वा ईश्वर भक्ति में संलग्न हो ॥ २३ ॥

यस्मिनृचः सामयजूंषि यस्मिंप्रतिष्ठिता
रथनाभाविवाशः । यस्मिंश्चित्तत्सर्वमोतं
प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥

भाषार्थ—जैसे रथ के चक्र नाभि अर्थात् पहिया के मध्य स्थूल काष्ठ में आस पास दंडे चारों तरफ से छिदे होते हैं वैसे ही मन में ऋक् यजुः साम भी चारों तरफ ओत प्रोत भाव से स्थित हैं । वस्त्र में जिस प्रकार ओत प्रोत भाव से सूत विद्यमान है, वैसे ही प्रजाओं के मन में ज्ञान वर्तमान है, वही हमारा मन वेद प्रतिपाद्य शुभ कर्म तथा सत्य ज्ञानानन्तरूप परमेश्वर में संलग्न हो ॥२४॥

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभी-

शुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदाजिरं जविष्ठं
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥

य० अ० ३४ । मं० १-६ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार सारथ्य क्रिया युक्त सारथी
अश्वों को बागडोरि के सहारे से वांछित देश को ले
जाता है तथा उसी बागडोरि के रथ युक्त अश्वों को जिस
तरफ को घुमाना चाहता है उसी तरफ को घुमा देता है,
वैसे ही अत्यन्त बेगवान् हृदिस्थ जरा अवस्था रहित मन
रूपी बागडोरि से जीव मन के साथ सम्बद्ध होकर घुमा
कर संपूर्ण इन्द्रियरूपी घोड़ों को विषय रूपी सड़कों पर
घुमा कर वांछित अर्थ को ग्रहण करता है, वही इस सब
का मन परमेश्वर सबन्धी अवस्था मनन निदिध्यासन आदि
(यज्ञ) यागादिशुभ कर्मोंमें सदैव परमेश्वरकी कृपासे
अभिरमण करे ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

स नः पवस्व शङ्खे शं जनाय शमवते

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

श० राजेन्नोषधीभ्यः ॥२६॥

साम० उत्तरार्चिके० पपा० १ मं १ ॥

भार्गव—हे राजन् ! प्रकाशमान आप हमारे गौ पुत्र घोड़ा ओषधियों को सुख युक्त करो ॥ २६ ॥

अभयं नः कस्त्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृ-
थिवी उभे इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादु-
त्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥ २७ ॥

भार्गव—हे जगदीश्वर ! अन्तरिक्ष घुलोक भूलोक
तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, अर्धर इन्हीं से हम सब को
भय शून्य करो ॥ २७ ॥

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञाताद-
भयं परो यः । अभयं नक्तमभयं दिवा नः
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ २८ ॥

अथर्व० कां० १६ सू० १५ मं० ५ । ६ ॥

भार्गव—मित्र शत्रु प्रत्यक्ष दिन रात्रि हम सब
को भय शून्य हों तथा सम्पूर्ण दिशाओं में हमारे मित्र
हों, शत्रु न हों ॥ २८ ॥

॥ इति शान्ति प्रकरणम् ॥

अथ आचमन मन्त्राः ।

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा

अर्थ—हे (अमृत) सुखप्रद जल ! तू (उपस्तरणम्) प्राणियों का आश्रय भूत (असि) है (स्वाहा) यह हमारा कथन शोभन हो ॥

ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ।

अर्थ—हे (अमृत) अमृत तू (अपिधानम्) निश्चय पोषक (असि) है ।

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा

अर्थ—(माये) मुझ में (सत्यं) सच्चाई (यशः) कीर्ति (श्रीः) शोभा [श्रीः] लक्ष्मी (श्रयताम्) स्थित हो । ओं यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है ।

अथ अंग स्पर्श मन्त्राः ।

ओं वाङ्मंऽआस्येऽस्तु ।

अर्थ—(मे) मेरे (आस्ये) मुख में (वाक्) वाक् इन्द्रिय, सुस्थित (अस्तु) हो ।

ओं नसो मे प्राणोऽस्तु ।

अर्थ—(मे) मेरे (नसोः) दोनों नासिका के छिद्रों में (प्राणोः) प्राण वायु वा प्राणोन्मिदय स्थिर (अस्तु) हों ।

ओं अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ।

अर्थ—(मे) मेरे (अक्षणोः) नेत्र गोलकों में (चक्षुः) चक्षुरिन्द्रिय सुस्थित (अस्तु) हो ।

ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ।

अर्थ—(मे) मेरे (कर्णयोः) दोनों कानों में (श्रोत्रम्) श्रोत्रोन्मिदय सुस्थित [अस्तु] हो ।

ओं बाहोर्मे बलमस्तु ।

अर्थ—[मे] मेरे [बाहोः] दोनों भुजाओं में [बलम्] बल शक्ति [अस्तु] हो ।

ओं ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु ।

अर्थ—[मे] मेरी [ऊर्वोः] जङ्घाओं में [ओजः] वेग [अस्तु] हो ।

ओं अरिष्टानि मे अंगानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ।

अर्थ—[मे] मेरा [तनूः] देह, और [मे तन्वाः] मेरे देह के [अंगानि] अवयव [सह] साथ ही [अरि-
ष्टानि] अनुपहत अबाधित [सन्तु] हों ।

विधि—इन मन्त्रों से दहने हाथ से जल स्पर्श करके यार्जन करना फिर विधि पूर्वक सभिधा चुने ।

अथ हवन मन्त्राः ।

ओं भूर्भुवः स्वः ।

विधि—इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के घर से अग्नि लाकर अथवा घृत का दीपक जलाकर उससे कर्पूर लगाकर किसी एक पात्र में धर उस में छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठाकर यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे, वह मन्त्र यह है ।

ओं भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी-
वव्वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवी देययजनी
पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे १

अर्थ—हे [देवयजनी] विद्वान लोग जिस में यज्ञ करते हैं ऐसी [पृथिवी] पृथिवी [तस्यास्ते] प्रसिद्ध क्षेत्री [पृष्ठे] पीठ पर [भूः भुवः स्वः] पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग लोक में स्थित [भूम्या, द्यौरिव] नक्षत्रों के बाहुल्य से जैसे आभास विराजमान है ऐसे उवासा बाहुल्य से विराजमान [वरिम्णा, पृथिवीव] अपने बड़प्पन से जैसे पृथिवी सबका आधार है, वैसे सर्वाश्रय भूत [अन्नादम्] यवादि अन्नों को भस्म करने वाले [अग्निम्] अग्नि को [अन्नाद्याय] शुद्ध भक्षण योग्य अन्नोत्पत्ति के लिये [आदधे] मैं यजमान स्थापित करता हूँ ।

विधि—इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ और थोड़ासा कर्पूर या घी डालकर अगला मन्त्र पढ़कर व्यजन से अग्नि प्रदीप्त करे ॥

ओं उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा-
पूर्ते स० सृजेथा मयं च । अस्मिन्तस्यस्थे

अधुत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत्॥

य० अ० १५ । यं० ५४ ।

अर्थ—[अग्ने] अग्ने हे तू [उदबुध्यस्व] प्रकट हो, और [प्रतिजागृहि] सब प्रकाशित हो [अयम्, त्वं च] यह यजमान और तू [इष्टापूर्ते] यज्ञादि कार्य और धर्मार्थ स्थान बनाना आदि शुभ कार्यों को [संस्तुनेथाम्] उत्पन्न करो [आसेमन् सधस्थे] इस आग्नि सहित स्थान में तथा [अधिउत्तरस्मिन्] इस से भी उत्तम स्थान में ईश्वर करे कि [विश्वे देवाः] सब विद्वान् लोग [यजमानश्च] और यजमान [सीदत्] बैठें ।

विधि —जब आंग्र समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा पन्नाश आदि की तीन लकड़ी आठ २ अंगुल की धृत में डुबोकर उन में से एक २ ले नीचे लिखे प्रथम मन्त्र से एक और दूसरे वा तीसरे मन्त्र से दूसरी समिधा धरे और चौथे से तीसरी धरे तत्पश्चात् ।

ओं अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्ते-
नेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध वर्द्धय । चास्मान् प्रजया

पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा॥१

इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ।

इस मंत्र से एक समिधा अग्नि में डाले ।

अर्थ-[जातवेदः] हे अग्ने [अयम्, इध्मः] यह काष्ठ [ते, आत्मा] तेरा आधार है [तेन] इस काष्ठ से [इध्यस्व] प्रदीप्त हो [वर्द्धस्व च] और बढ़ [अस्मान् च] और हम को [इद्धः] बढ़ा हुआ [प्रजया] पुत्रादि से [वर्द्धय] बढ़ा और [पशुभिः] पशुओं से [ब्रह्मवर्चसेन] बड़ी कान्ति से [अनाद्येन] अन्न आदि से हमें [सम्, एधय] अच्छे प्रकार बढ़ा [स्वाहा] यह हमारा दिया हुआ सुहुत हो ।

(इदमग्नये, जातवेदसे इदन्न मम) यह दिया हुआ पदार्थ जातवेदा (उत्पन्न हुए सब पदार्थों के साथ सम्बन्ध करनेवाले) अग्नि के लिये है, मेरे लिये नहीं अन्त्य वाक्य का अर्थ सर्वत्र ऐसा ही समझ लेना चाहिये ।

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् ।

आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा ॥२॥

इदमग्नये इदन्न मम ।

विधि—इस मन्त्र से और अगले से ।

ओं सुसमिद्धाय शोचिपे घृतं तीव्रं जुहोतन ।

अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥३॥

इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम

विधि—इस मन्त्र से अर्थात् इन दोनों मन्त्रों से दूसरी धरे ।

अर्थ—हे मनुष्यो ! (सुसमिद्धाय) अच्छे प्रकार जलाये हुए (शोचिपे) दीप्तिवाले, शुद्ध (जातवेदसे) सब में विद्यमान (अग्नये) अग्नि के लिये (तीव्रं घृतं) सब प्रकार से शुद्ध किये हुए घृतको (जुहोतन) दोगो ।
ओं तन्त्वासमिद्धिरंगिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।

बृहच्छोचा यविष्ठय स्वाहा ।

इदमग्नये०ऽगिरसे—इदन्न मम ।

यह तीनों मन्त्र य० अ० ३ । मं० १-२ ।

इस मन्त्र से तीसरी समिधा को धरे ।

अर्थ—हे (अङ्गिरः) सब को पास होनेवाले वा
गमनशील अंग तम्, त्वा) गार्हपत्य, आहवनीय आदि
रूप से प्रसिद्ध तुझ को (सुसमिद्धिः) समिधाओं से
और (घृतेन) घृत से (वर्द्धयामसि) बढ़ावे । हे अंग्रे
(बृहत्) प्रकाश, छेदनादि गुणों के कारण बड़े और
(यविष्ठ्य) अति बलवान् तुम (शोच) प्रकाशित होओ ॥

विधि—इन मन्त्रों से समिधाधान करके होम का
शाकल्य जो कि यथावत् विधि से बनाया हो, सुवर्ण
चांदी कांसा आदि धातु के पात्र में अथवा काष्ठ में
बेदी के पास सुरक्षित धरें. ऊपर लिखित घृतादि
जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध आदि पदार्थ
सहित पात्रों में रक्खा हो, उस घृत, अन्य मोहन भोग
आदि जो कुछ सामग्री हो) उन में से कम से कम
६ मासाभर अधिक से अधिक छटांक भर की आहुति
देवे, यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से
चमचा कि जिसमें ६ मासा घृत आवे ऐसा बनवाया
हो भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी ।

ओं अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्ते-
नेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध वर्द्धय । आस्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥
इदमग्रे जातवेदसे इदञ्च मम ।

विधि—तत्पश्चात् अञ्जलि में जल लेके हवन कुंड
के चारों ओर छिड़कावे । वे मन्त्र निम्न लिखित हैं ।

ओं अदितेऽनुमन्यस्व ।

अर्थ—(अदिते) हे अखण्डनीय परमात्मन् !
आप हमें अहिंसादि सम्पादनार्थ (अनुमन्यस्व) अनु-
कूल मात दीजिये ।

ओं अनुमतेऽनुमन्यस्व ।

अर्थ—(अनुमते) हे अनुगत व्यापक ज्ञानस्वरूप
(अनुमन्यस्व) अनुकूल मति दीजिये ।

ओं सरस्वत्यनुमन्यस्व ।

अर्थ—(सरस्वति) हे प्रशस्त ज्ञानस्वरूप !
(अनुमन्यस्व) अनुकूल मति दीजिये ।

ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञः प्रसुव

यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूः
केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥

य० अ० ३० मं० १

अर्थ—हे (देव) प्रकाशक (सवितः) सर्वोत्पादक ईश्वर ! आप (भगाय) ऐश्वर्य के लिये (यज्ञम्) शिल्पादि विविध यज्ञों को (प्र,आमुव)उत्पन्न कीजिये और (यज्ञपतिम्) यज्ञों के पालक राजा को (प्र,आमुव) उत्पन्न कीजिये (दिव्यः) शुद्ध (गन्धर्वः) पृथ्वी के धारक (केत,पूः) विज्ञान क पवित्र कर्त्ता हो (नः) हमारी (केतम्) बुद्धि को (पुनातु) पवित्र करो और आप (वाचस्पतिः) वाणी के स्वामी हो अतः (नः) हमारी (वाचम्) वाणी को (स्वदतु) मधुर बनाओ ।

विधि—इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें । इस के पश्चात् सामान्य होमाहुति गर्भाधान आदि प्रधान संस्कारों में अवश्य करे । इस में मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती है उन में से यज्ञ कुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञ कुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है । उनका नाम आधारावाज्याहुति

कहते हैं, और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनको आज्य भागाहुति कहते हैं। सो घृत पात्र में से सूवा को भर अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका से सूवा को पकड़ कर—

ओं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ।

अर्थ—(अग्ने) प्रकाशक परमात्मा के लिये वा भौतिक अग्नि के लिए (स्वाहा) सुहुत हो ।

ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इदन्न मम ।

अर्थ—(सोमाय) सोमरसादि के लिये वा परमात्मा की प्रीत्यर्थ (स्वाहा) सुहुत हो !

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापते-इदन्न मम

अर्थ—(प्रजापतये) प्रजाओं के पालक के लिये० ।

ओं इन्द्राय स्वाहा ॥ इदिन्द्राय-इदन्न मम

अर्थ—(इन्द्राय) ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा के लिये०

विधि—इन में से प्रथम से अग्नि के उत्तर भाग में आहुति डालें। द्वितीय मन्त्र से दक्षिण भाग में आहुति डालें तृतीय वा चतुर्थ मन्त्रों से मध्य में आहुति दें।

ओं भूश्रय्ये स्वाहा ॥ इदमश्रय्ये इदन्न मम ।

ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न

मम । ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमा-

दित्याय इदन्न मम ।

ओं भूर्भुवः स्वरश्निवाध्वादित्यभ्येःस्वाहा

इदमग्नि वाध्वादित्येभ्य इदन्न मम ।

अर्थ-(१) (अग्नि) अग्नि स्वरूप ईश्वर के लिए० ।

(२) (वायु) व्यापक ईश्वर के लिए० ।

(३) आदित्यवत् प्रकाशक ईश्वर के लिए० ।

(४) सर्व गुण सम्पन्न ईश्वर के लिए० ।

विधि—यह चार घृत की आहुतियों देकर स्विष्ट कृत होमाहुति एक ही है । यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिए ।

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा
न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टत् स्विष्टकृद्धिद्या-
त्सर्वं स्विष्ट सुहुतं करोतु मे । अश्रय्ये स्विष्ट-

सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्ट कृते सुहुत-
हुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्ध-
यित्रे सर्वान्नः कामान् समर्द्धय स्वाहा ॥
इदमग्नये स्विष्टकृते-इदम मम ।

अर्थ-(यत्) जो (अस्य कर्मणः) इस कर्म के
विषय में (अत्यरीरिचम्) मैं ने अधिक किया । (यद्वा)
अथवा (न्यूनम् इह) यहां थोड़ा (अकरम्) किया
गया (सर्वं, स्विष्टम्) सब इष्ट वस्तुओं को (विद्वान्)
जानने वाला और (स्विष्टकृत्) अच्छे इष्ट पदार्थों
का करने वाला (अग्निः) परमात्मा (तत्) उस
सब को (मे) मेरे लिए (सुहुतम्) अच्छे प्रकार
(करोतु) करे और (स्विष्टकृते) शोभन यज्ञ
सम्पादक (सुहुतहुते) सुहुत को ग्रहण करने वाले
(कामानां) इष्ट्य माण (सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनाम्)
सर्व प्रायश्चित्त की आहुतियों को (समर्द्धयित्रे)
बढ़ाने वाले (अग्नये) भौतिक अग्नि के लिए (सुहुत
हो) हे ईश्वर ! (नः) हमारे (सर्वान् कामान्)
आखिल हितकार्यों को (समर्द्धय) बढ़ाओ ।

इस से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोल कर आहुति देनी चाहिए ।
ओं प्राजापतये स्वाहा ॥ इदं प्राजापतये इदन्न मम ।

विधि—इस से मौन होकर आहुति देकर चार आज्या-
 हुति घृत की दें । परन्तु जो नीचे लिखी आहुति
 चौल समावर्तन विवाह में मुख्य हैं वे चार मन्त्र यह हैं ।
**ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि पवस आसुवो-
 र्जमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥**

इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ।

अर्थ—हे (अग्ने) अग्ने तू (आयूंषि) जीवनों को
 (पवसे) रक्षा करता है तू (नः) हमारे लिए ऊर्जम
 बल को (च) और (इषम) अन्नादि को (आसुव) प्राप्त
 कराये । हमारे (दुच्छुनान्) राक्षसों को हम से
 (आरे) दूर (बाधस्व) पीड़ित कीजिए ॥१॥

**ओं भूर्भुवः स्वः । अग्निर्ऋषिः पवमानः
 पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयं
 स्वाहा ॥ इदमग्ने पवमानाय—इदन्न मम ।**

अर्थ—(अग्निः । अग्नि (ऋषिः) सर्वत्र व्याप्त है, (पवमानः) शोधक हैं, (पाञ्चजन्यः) चारों वर्णाश्रमी, और तदितर जन एवं पांचों प्रकार के मनुष्यों में कार्य साधक हैं । (पुरोहितः ऋत्विगादिकों से अपने सन्मुख इष्ट सिद्धि के लिए रक्खा जाता है । (तम्, महागयम्) उन विद्वानों से स्तुति के योग्य अग्नि से हम (ईमहे) धनादि की याचना करते हैं ॥ २ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा
अस्मे वर्चः सुवीर्यम् । दधद्रयि मयि पोषं
स्वाहा ॥ इदम ग्नये पवमानाय-इदन्न मम

अर्थ—[३] [अग्नि] हे अग्ने तू [स्वपाः] सुन्दर काम करने वाला है, [अस्मे] हम में [सुवीर्यम्] अच्छे बल वाले [वर्चः] तेज को [पवस्व] प्राप्त कराओ [मयि] मुझ में [रयिम्] धनादि को और [पोषम्] गवादि की पुष्टि को [दधत्] धारण करो ॥ ३ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो
विश्वा जातानि परिता वभूव । यत्कामास्ते
जुहुमस्तन्नौ अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां
स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ।

अथ—[प्रजापते यः] स मन्त्र का अर्थ पूर्व कर आये है

विधि—इन मन्त्रों से घृत की चार आहुति करके
नीचे लिखे आठ आज्याहुति सर्वत्र मङ्गल कार्यों
में देवें ।

ओं त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य
हेडोऽवयासिसीष्टः । यजिष्ठो वह्नितमः शो-
शुचानो विश्वा द्वेपांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्
स्वाहा ॥ इदमग्निवरुणाभ्यां—इदन्न मम

अर्थ—हे [अग्ने] प्रकाशमान राजन् तू [विद्वान्]

हमारे सब कार्यों को जानने वाला है [देवस्य]

दिव्य गुणों वाले [वरुणस्य] परमात्मा के [हेडः]

अनादर से [त्वम्] तू [नः] हम को [अवयासि-

सीष्टाः] पृथक् रख अर्थात् आप ऐसी कृपा करें

जिस से हम ईश्वर की आज्ञानुकूल चलें [यजिष्ठः]
तुम यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ हो और [वह्नितमः]
द्विगादि उपयोगी पदार्थों के पैदा करने वाले हो
[शाशुचानः] अत्यन्त तेज वाले हो, अतः तुम [अस्मत्]
हम से [विश्वा, द्वेपांसि] सब द्वेप के कारण पापों
को [प्रमुमुग्धि] अच्छी तरह से हटाओ ।

ओं स त्वन्नोऽग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठोऽस्या
उपसो व्युष्टौ । अवयद्व नो वरुणं रराणो
वीहि मृडीकं सुहवो न एवि स्वाहा ॥

इदमग्नीवरुणाभ्याम्—इदन्न मम ।

अर्थ—[अग्ने] हे प्रकाशमान राजन् [स त्वन्नः]
पूर्वोक्त गुणों वाला तू (आती) अपने आगमन से (नः)
हमारा (अवमः) रक्षक (भवः) हो और (अस्या उपसः)
इस प्रभात काल के (व्युष्टौ) अग्नि होनादि कामों में
(नेदिष्ठः) निकट हो (नः) हमारे (वरुणम्) आचरण
करने वाले पाप को (अवयद्व) नष्ट करो और (रराणः)
यज्ञ करने वालों के लिये अत्यन्त फल देने वाले आप
(मृडीकम्) मुख करने वाले हविः शेष भाग का (वीहि)

स्वीकार कीजिये आर (नः) हमारे लिये [सृष्टवः]
सुन्दर आह्वान से युक्त [ऐधि] हो ।

ओं इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय त्वाम-
वस्युराचके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ।

अर्थ—[वरुण] प्रशंसनीय परमात्मन [मैं] मेरे [इमम,
हवम] इस स्तुति समूह को [श्रुधि] आप सुन [च] और
[अद्य] आज यज्ञ दिन में [मृडय] हम सब को सुखी करें
[अवस्युः] अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ मैं [त्वाम]
आप को [आचक] सन्मुख स्तुति करता हूँ ।

ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते
यजमानो हविर्भिः । अहेडमानो वरुणेह
बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः स्वाहा ॥
इदं वरुणाय—इदन्न मम ।

अर्थ—[वरुण] हे जगदीश्वर [ब्रह्मणा] वेद से [वन्द-
मानः] स्तुति करता हुआ मैं [तत्] उस आयु को
[हविर्भिः] शाकल्य आदि से [यजमानः] यज्ञ करने
वाला [आशास्ते] चाहता है [इह] इस यज्ञ आदि कर्मों में

[भोहृदमाना] हमारा -नादरन करता हुआ तू [शोधि]
हमारी इच्छा को समझ, हे [उरुशंस] बहुतों से स्तुति
करने के योग्य [नः] हमारे [आयुः] जीवन को
[मा प्रमोषीः] मत नष्ट करें ॥४॥

आ ये ते शतं वरुणा ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा
वितता महान्तः ! तेभिर्नो अद्य सवितोत
विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णावे विश्वेभ्यो
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः—इदन्न मम ।

अर्थ—[वरुण] हे स्वीकार करने योग्य जगदीश्वर
ये ते) जो वे (शतम्) सैकड़ों और (ये, सहस्रम्) जो हजा-
रों (यज्ञियाः) यज्ञ सम्बन्धी [हान्तमः] बड़े (पाशाः) प्रति
बन्धक रुकावट (वितताः) फैले हुए हैं (तेभिः) उन से
[नः] हम को [अद्य] आज [सविता, उत, विष्णुः]
सर्वोत्पादिक और व्यापक आप और [विश्वे, स्वर्काः]
[मरुतः] सब अच्छे पूजनीय देवता विद्वान् लोग
[मुञ्चन्तु] छुड़ावें ॥५॥

ओं अयाश्चाग्नेऽस्व नभिशस्तिपाश्च
 सत्य मित्वमयासि । अयानो यज्ञं वहस्यया
 नो धेहि भेषजं स्वाहा ॥ इदमग्नये
 अवसे—इदन्न मम ।

अर्थ—[अग्ने] हे भौतिक अग्ने [त्वम्] तुम [अयः]
 बाहर और भीतर सर्व स्थित [असि] हो [च] और
 [अनभिशस्तिपाः] जिन का दोष न रहे ऐसे प्रायश्चित्त
 योग्य पुरुषों के पालक हो [च] और [त्वं] तुम
 [अया, असि] कल्याण कारक अग्ने, तुम अयः
 हमारे आश्रम होकर यज्ञ के साधन चरु आदि को
 जलादि देवताओं के लिये [वहसि] ले जाते हो इस
 लिये [नः] हमारे लिये [भेषजम्] दुःख नाश रूप सुख
 को [धेहि] देओ ॥६॥

ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं
 विमध्यमं श्रथाय । अथा वयमादित्य
 ब्रते तवानांगसोऽदितये स्याम स्वाहा ॥
 इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च—इदन्न मम ।

अर्थ—[चरणा] हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर [अस्मात्] हम लोगों से [अथम] छोटे और [मध्यम] विचले दर्जे के [उच्च] और [उत्तम] ऊँचे दर्जे के [पाशम] बन्धन को [व्यवशयात्] अच्छे प्रकार नष्ट कीजिये [अथ] और (आदित्य) हे आविनाशी ईश्वर (तव, व्रते । तेरे आज्ञा पालन रूपी व्रत में स्थित (वयम्) हम लोग (अनात्मः) उपद्रव रहित होकर (अदितये) मुक्ति मुक्त के लिये (स्यात्) नियत होवें ॥ ७ ॥

ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसावरे-
पसौ । मा यज्ञं हिंसिष्ठं मा यज्ञपतिं
जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा ॥
इदं जातवेदोभ्यां—इदं मम ।

अर्थ—(नः) हम लोगों के बीच में (अरेपसौ) पाप रहित (समनसौ) समान मनवाले अर्थात् एक दूसरे के सहायक (सचेतसौ) समान बुद्धि वाले स्त्री पुरुष (भवतम्) हों और वे दोनों (यज्ञम्) यज्ञ का (मा हिंसिष्ठम् , लोप न करें और (मा,

यज्ञपतिम्) यज्ञों के पालक को भी पीड़ा न पहुँचावे
(अद्य) आज यज्ञ के दिन, ऐसे ही स्त्री पुरुष (नः)
हमारे लिये (शिवौ) शान्त रूप (भवतम्) होंगे।

विधि—सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे, किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण हो, करे। यदि यजमान न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे। यदि कोई कार्य कर्त्ता जड़ मंद मति काला अक्षर भैस वरावर जानता हो तो वह शुद्ध मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित और ऋत्विज् मन्त्रोच्चारण कर और कर्म उसी मूढ़ यजमान के हाथ से करवावे। पुनः निम्न लिखित मन्त्रों से प्रातःकाल हवन करे।

अथप्रातःकालहविडालनेके४मन्त्र ।

ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ।

अर्थ—(सूर्यः) चराचर, सकल संसारका आत्मा सर्व व्यापक परमेश्वर (ज्योतिर्ज्योतिः) चमकने वाले लोकों का भी प्रकाशक है (सूर्यः) वह सब के भीतर

स्थित हुआ २ प्राण जीवन का हेतु हो रहा है ऐसे परमात्मा की आज्ञा पालन करके सारे जगत के उपकारार्थ यह द्यन करता हूँ ।

ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ।

अर्थ—(सूर्यः) तेजोमय परमेश्वर (वर्चः) विद्य प्रकाश के देने वाला है (ज्योतिः) जैसे सूर्य का प्रकाश एक स्थान पर नहीं रहता, सर्वत्र फैल रह है । वैसे परमेश्वर (वर्चः) ब्रह्म तेज देने वाल विधाओं का प्रचार हम से कराने वाला हो ।

ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।

अर्थ—(ज्योतिः) जो ईश स्वयं प्रकाशमय है (सूर्यः) और सकल संसार का ईश्वर है । (ज्योतिः) और प्रकाश तथा ऐश्वर्य का देने हारा है ऐसे अद्वितीय ब्रह्म की प्रसन्नता के लिये हम प्रेम करते हैं ।

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या
जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ।

अर्थ—[देवेन] प्रकाश डालने वाला [सवित्रा] ब्रह्मबुद्धि से (उपज्ञा+इन्द्रवत्या) सुन्दर ऐश्वर्य युक्त रंग बरङ्गी उषा के साथ (सजुः) मिना हुआ (सूर्यः) सूर्य लोक (सजुः) सर्वत्र समान (जुषाणः) सेवन करता हुआ या व्याप्त हो कर इवन किये हुए पदार्थों का आनन्द से (वेतु) देश देशान्तरों में पहुंचाने के लिये ग्रहण करे ।

अथसायंकालआहुतिडालनेके४मंत्र

ओं अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥१॥

ओं अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॥२॥

ओं अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥३॥

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या
जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ।

अर्थ—सूर्य के स्थान पर यदा अग्नि शब्द प्रयुक्त किया गया क्योंकि सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद यदि कोई ज्योति होती है तो वह भौतिक अग्नि ही होती है ।

[६१]

अथ सायंप्रातः दोनों समय के मंत्र

ओं भूर्भुवः प्रोक्तुं स्वाहा ।

इदमग्नये प्रोक्तुं—इदं नमः ।

अर्थ—[१] अग्नि और प्राण स्वरूप परमात्मा है उसका नाम भूः है । उन्हें हवि देकर आनन्द पूर्वक बुलाता हूँ, वह सुख-दाई होवें ।

[२] अग्नि स्वरूप परमात्मा प्राण है [प्राण स्य प्राणः] परमेश्वर प्राणों का भी प्राण है और प्राण से प्रिय है उसे हवि देता हूँ ।

ओं भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा ।

इदं वायवेऽपानाय—इदं नमः ।

अर्थ—(भुवः) जो वायु तथा अपान है इन दोनों के समान जो हमारे शरीर में से रोग पाप तथा दुष्ट विचार दूर करने वाला बल दाता पिता है उस को नमस्कार हो ।

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ।

इदमादित्याय व्यानाय-इदन्न मम ॥

अर्थ—सुख स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो ।
हम उस आदित्य को जो व्यान के समान है, आहुति देते हैं । मानवी शरीर में जैसे व्यान रसों को सब अङ्गों में ले जाता है, खून को गर्दिश देता है ।

ओं भूर्भुवः स्वर्गनिवाद्यादित्येभ्यः प्राणा-
पानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवाद्या-
दित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः—इदन्न मम

अर्थ—शरीर में जो पांच प्राण और पांच उप-
प्राण हैं, संसार के जो तीन लोक भूमि अन्तरिक्ष
और द्यौ तथा तीन विद्यार्थे ऋक् यजुः साम हैं, उन
सब का जो अधिपति परमात्मा है, जो कि सारे संसार
और उसके पदार्थों से ही प्रकट होता है, उस ईश
की स्तुति और पूजा सब लोग करें ।

ओं आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः
स्वरो स्वाहा ।

अर्थ—[आपः] जल के समान सर्वत्र गामी सध
व्यापक और शान्तिदायक प्रभु है [रसः] जो ईश्वर
मन्यु रूप हो कर दुष्टों को दण्ड देने वाला प्रत्येक पदार्थ
में रस रूप हो कर विराजमान हो रहा है । (अमृतम्)
जो अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, पुराण, अनादि,
अक्षर, अजन्मा, नित्य, शुद्ध, बुद्ध स्वरूप, अनन्त
ध्रुव परमात्मा है । ब्रह्म, दृढ, दृढि, धातुओं से ब्रह्म
शब्द सिद्ध होता है, जो सब के ऊपर विराजमान सब से
बड़ा - नन्त बल युक्त परमात्मा है उसे ब्रह्म कहते हैं ।
ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया
मामद्य मेधया ऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥

अर्थ— [यां] जिस [मेधां] अनेक विद्याओं के
धारण करने की शक्ति वाली तत्काल बातों को ग्रहण
करने वाली बुद्धि को [देवगणाः] देवता लोग
[पितरश्च] पितर लोग [उपासते] धारण करते हैं ।
[तया, मेधया] उस सात्विकी बुद्धि से [मामद्य]
मुझ को आज [अग्ने] प्रकाश प्रदाता परमात्मन्
[मेधाविनं] मेधा युक्त [कुरु] कीजिये ।

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ।
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ।

ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्य-
स्मज्जुहुराणामेनो भूगिष्ठान्ते नम उक्तिं
विधेम स्वाहा ।

इन दोनों मन्त्रों के अर्थ पहिले ईश्वर स्तुति,
प्रार्थना, उपासना विषय में कर दिये हैं वहां
देख लेंगे ।

ओं सर्वे वै पूर्णा ॐ स्वाहा ॥

अर्थ—सब निश्चय रूप से पूर्णा हो ।

इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात् एक २ बार
पढ़ के एक २ करके तीन आहुति देनी ।

इति शुभं भूयात् ।



ऋत्वनुकूल हवन सामग्री ।

समस्त १-कुलीरा, २ ताखीस पत्र, ३ पत्रज, ४ दाख
५ लज्जाघटी, ६ शीतल खीनी, ७ कपूर, ८ चीड़, ९ देव-
दार, १० गिलोय, ११ अमर, १२ तगर, १३ केसर, १४
इन्द्रजौ, १५ गुग्गुल, १६ कस्तूरी, १७ तीनों चन्दन, १८
जायफल, १९ आयफल, २० धूप सरल, २१ पुष्कर मूल,
२२ कमलगट्टा, २३ मजीठ, २४ धनकचूर, २५ दालखीनी,
२६ सुखरका छाख, २७ तेजफल, २८ शङ्खपुष्पी, २९ चिरा-
यता, ३० सस, ३१ गोसक, ३२ साण्ड, ३३ गोघृत, ३४
ऋतुफल, ३५ मान या मोहनभोग, ३६ जंड समिधा मुशक
बाबा [चित्र वेशाख]

प्रांश-मुरा, बायबिडंग, कपूर, चिरौजी, नागरमोथा
पीलाचन्दन, कुलीरा, निर्मली, सतावर, सस, गिलोय, धूप
दाखचीनी, खवंग, कस्तूरी, चन्दन, तगर, भोजपत्र, भात
कुशाकी जड़, तालीस पत्र, पञ्चाख, दारुहल्दी, लालचन्दन
मजीठ, शिखारस, केसर, जटामांसी, नेत्रयाता, इलायची
बड़ी, उलाव, आमले, मूंगके जड़, ऋतुफल, चन्दनचूर
[ज्येष्ठ आषाढ़] ।

धर्या-काळा अमर, पीली अमर, जौ, चीड़, धूपसरल,
तगर, देवदारु, गुग्गुल, नकलीकनी, राल, जायफल, मूंडी
गांढा, निर्मली, कस्तूरी, मखाने, तेजपत्र, कपूर, धनकचूर
बेल, जटामांसी, छोटी इलाची, बच, गिलोय, तुलसी के
बीज, बायबिडंग, कमल डन्डी, शहद, चन्दन श्वेतका चूरा
ऋतुफल, नागकेसर, ब्राह्मी, चिरायता, उड़द के लड्डु

छुहारे, सङ्गाहुली, मोचरस, विष्णुक्रांता, ढाक की समिधा
गोधृत, खाण्ड, भात ॥ [श्रावण, भाद्रपद]

शरदू-चन्दन सफ़ेद, चन्दन लाल, चन्दन पीला गुग्गुल
नागकेसर, इलायची वड़ी, गिलोय, चिरौंजी, विदाग-
कन्द, गुल्तरकी छाल, ब्राह्मी, दालचीनी, कपूर, कचरी,
मोचरस, पित्तपापड़ा, अमर, भारङ्गी, इन्द्रजौ, रेणुका,
मुनक्का, असगन्ध, रीतलचीनी, जायफल, पत्रज, चिरायता
केसर, कस्तूरी, किशमिश, खाण्ड, जटामांसी, तालम-
खाना, सहदेवी, ढाक की समिधा, धानकी खाल, खीर,
विष्णुक्रांता, कपूर, गोघृत, शृतुफल, [आश्विन कार्तिक

हेमन्त-कुट, मुसली, गन्ध काकिला, घुड़वाच्छ, पित
पापड़ा, कपूर, कपूर कचरी नकछिकनी, गिलोय, पटोल-
पत्र, दालचीनी, भारङ्गी, मौँफ, मुनक्का, कस्तूरी, चीड़,
गुग्गुल, अखरोट, रासना, शहद, पुष्करमूल, केसर, छुहारे
गोखरू, कौञ्चके बीज, कांटेदार गिलोय, पर्पटी, बादाम
मुलहटी, काले तिल, जावित्री, लाल चन्दन, मुश्क बाला,
तालीसपत्र, रेणुका, खोपा, विना नमक की खिचड़ी, ग्राम
या खैर की सामधा, गोघृत, देवदारू, [मार्गशीर्ष पौष]

शिशिर-अखरोट, कचूर, वायबिडंग, राज, मुण्डी,
मोचरस, गिलोय, मुनक्का, रेणुका, काले तिल, कस्तूरी
तज, केसर, चन्दन, चिरायता, छुहारे, तुलसी के बीज,
गुग्गुल, चिरौंजी, काकड़ासींगी, खाण्ड, सतावर, दारू
हल्दी, शङ्खपुष्पी, पन्नास, कौञ्च, के बीज, जटामांसी,
भाज पत्र, गुल्तर, बड़ समिधा, मोहन मोग (कडाह)
गोघृत [माघ फाल्गुन]

